

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 378]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-41/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत कुसमी, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. कुसमी नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महात्मा गांधी वार्ड
2	चन्द्रशेखर वार्ड
3	इंदिरा गांधी वार्ड
4	विनोबा भावे वार्ड
5	पं० जवाहरलाल नेहरू वार्ड
6	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
7	सरदार भगत सिंह वार्ड
8	मौलाना अ.कलाम आजाद वार्ड
9	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
10	राजीव गांधी वार्ड
11	बाल गंगाधर तिलक वार्ड
12	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
13	मदन मोहन मालवीय वार्ड
14	डॉ. भीमराव अंबेडकर वार्ड
15	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

कुसमी नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक— 01 महात्मा गांधी वार्ड

उत्तर दिशा:—	उत्तर पश्चिम के कोना में घुन्सी के मकान से पूर्व की ओर नसीमा के मकान तक।
पूर्व दिशा:—	नसीमा के मकान से दक्षिण की ओर पूराना चीर घर मस्जिद तक।
दक्षिण दिशा:—	पूराना चीर घर मस्जिद से पश्चिम की ओर छत्रपति के मकान तक।
पश्चिम दिशा:—	छत्रपति के मकान से कंजिया बाई—पास रोड़ से उत्तर की ओर घुन्सी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक— 02 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड

उत्तर दिशा:—	उत्तर पश्चिम के कोना में ठसर के मकान से पूर्व की ओर सीताराम के मकान तक।
पूर्व दिशा:—	सीताराम के मकान से दक्षिण की ओर शासकीय अस्पताल तक।
दक्षिण दिशा:—	शासकीय अस्पताल से मेन रोड़ होते हुए पश्चिम की ओर लक्ष्मण के मकान तक।
पश्चिम दिशा:—	लक्ष्मण के मकान से उत्तर की ओर ठसर के मकान तक।

वार्ड क्रमांक— 03 इंदिरा गांधी वार्ड

उत्तर दिशा:—	उत्तर पश्चिम के कोना में धनेश के मकान से पूर्व की ओर अपसाना के मकान तक।
पूर्व दिशा:—	अपसाना के मकान से दक्षिण की ओर पूर्व सार्वजनिक शौचालय तक।
दक्षिण दिशा:—	पूर्व सार्वजनिक शौचालय से पश्चिम की ओर मेन रोड़ होते हुए पूर्व जनपद पंचायत कार्यालय भवन तक।
पश्चिम दिशा:—	पूर्व जनपद पंचायत कार्यालय भवन से उत्तर की ओर धनेश के मकान तक।

वार्ड क्रमांक— 04 विनोबाभावे वार्ड

उत्तर दिशा:—	उत्तर पश्चिम के कोना में स्वागत गेट के पास निसार के मकान से मेन रोड़ होते हुए पूर्व की ओर जल संसाधन कार्यालय भवन तक।
पूर्व दिशा:—	जल संसाधन कार्यालय भवन से दक्षिण की ओर किसुन के मकान तक।
दक्षिण दिशा:—	किसुन के मकान से पश्चिम की ओर पुष्पवाटिका होते हुए पिताम्बर के मकान तक।
पश्चिम दिशा:—	पिताम्बर के मकान से उत्तर की ओर स्वागत गेट के पास निसार के मकान तक।

वार्ड क्रमांक- 05 पं० जवाहरलाल नेहरू वार्ड

- उत्तर दिशा:- उत्तर पश्चिम के कोना में दुर्गा मंडप से मेन रोड़ होते हुए पूर्व की ओर कमलापुरी किराना दुकान तक।
 पूर्व दिशा:- कमलापुरी किराना दुकान से सी.सी.रोड़ होते हुए दक्षिण की ओर हनुमान मंदिर तक।
 दक्षिण दिशा:- हनुमान मंदिर से पश्चिम की ओर जगमनी के मकान तक।
 पश्चिम दिशा:- जगमनी के मकान से उत्तर की ओर दुर्गा मंडप तक।

वार्ड क्रमांक- 06 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर दिशा:- उत्तर पश्चिम के कोना में शिवा के मकान से सी.सी.रोड़ होते हुए पूर्व की ओर माल्टु के मकान तक।
 पूर्व दिशा:- माल्टु के मकान से दक्षिण की ओर नसरुल्ला के मकान तक।
 दक्षिण दिशा:- नसरुल्ला के मकान से पश्चिम की ओर जगन्नाथ के मकान तक।
 पश्चिम दिशा:- जगन्नाथ के मकान से उत्तर की ओर सिंचाई कालोनी होते हुए शिवा के मकान तक।

वार्ड क्रमांक- 07 सरदार भगत सिंह वार्ड

- उत्तर दिशा:- उत्तर पश्चिम के कोना में भगत होटल से पूर्व की ओर मेन रोड़ होते हुए साल्दा खातुन के मकान तक।
 पूर्व दिशा:- साल्दा खातुन के मकान से दक्षिण की ओर गुलाम रब्बानी (डिस्को) के मकान तक।
 दक्षिण दिशा:- गुलाम रब्बानी (डिस्को) के मकान से सी.सी.रोड़ होते हुए पश्चिम की ओर समीर होटल तक।
 पश्चिम दिशा:- समीर होटल से उत्तर की ओर भगत होटल तक।

वार्ड क्रमांक- 08 मौलाना अ. कलॉम आजाद वार्ड

- उत्तर दिशा:- उत्तर पश्चिम के कोना में बड़ी मस्जिद से पूर्व की ओर निजाम के मकान तक।
 पूर्व दिशा:- निजाम के मकान से सी.सी. रोड़ होते हुए दक्षिण की ओर मेन रोड़ में लवनाथ के दुकान तक।
 दक्षिण दिशा:- लवनाथ के दुकान से पश्चिम की ओर बिरेन्द्र के मकान तक।
 पश्चिम दिशा:- बिरेन्द्र के मकान से उत्तर की ओर किसान पारा होते हुए बड़ी मस्जिद तक।

वार्ड क्रमांक- 09 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड

- उत्तर दिशा:- उत्तर पश्चिम के कोना में हदीश के मकान से पूर्व की ओर असलम के मकान तक।
 पूर्व दिशा:- असलम के मकान से दक्षिण की ओर सी.सी.रोड़ होते हुए प्रयाग गुप्ता के मकान तक।
 दक्षिण दिशा:- प्रयाग गुप्ता के मकान से पश्चिम की ओर मेन रोड़ होते हुए बंधन के मकान तक।
 पश्चिम दिशा:- बंधन के मकान से उत्तर की ओर मेन रोड़ होते हुए हदीश के मकान तक।

वार्ड क्रमांक- 10 राजीव गांधी वार्ड

उत्तर दिशा:-	उत्तर पश्चिम के कोना में रामावति के मकान से पूर्व की ओर दिलिप गुप्ता के मकान तक।
पूर्व दिशा:-	दिलिप गुप्ता के मकान से दक्षिण की ओर मनोरंजन भवन तक।
दक्षिण दिशा:-	मनोरंजन भवन से पश्चिम की ओर शिव मंदिर होते हुए उदय सिंह के मकान तक।
पश्चिम दिशा:-	उदय सिंह के मकान से उत्तर की रामावती के मकान तक।

वार्ड क्रमांक- 11 बालगंगाधर तिलक वार्ड

उत्तर दिशा:-	उत्तर पश्चिम के कोना में हलिम के मकान से पूर्व की ओर मेन रोड़ अशोक के मकान तक।
पूर्व दिशा:-	अशोक के मकान से मेन रोड़ होते हुए दक्षिण की ओर खेल मैदान तक।
दक्षिण दिशा:-	खेल मैदान से पश्चिम की ओर फुलमनी के मकान तक।
पश्चिम दिशा:-	फुलमनी के मकान से उत्तर की ओर हलिम के मकान तक।

वार्ड क्रमांक- 12 सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड

उत्तर दिशा:-	उत्तर पश्चिम के कोना में बालक हाई स्कूल से पूर्व की ओर महाविद्यालय होते हुए बेनगंगा नदी तक।
पूर्व दिशा:-	बेनगंगा नदी से दक्षिण की ओर लाखु राम के मकान तक।
दक्षिण दिशा:-	लाखु राम के मकान से पश्चिम की ओर टींग बांध तक।
पश्चिम दिशा:-	टींग बांध से उत्तर की ओर सी.सी. रोड़ होते हुए बालक हाई स्कूल तक।

वार्ड क्रमांक- 13 मदन मोहन मालवीय वार्ड

उत्तर दिशा:-	उत्तर पश्चिम के कोना में मुजीब के मकान से पूर्व की ओर टींग बांध तक।
पूर्व दिशा:-	टींग बांध से दक्षिण की ओर प्रभावती के मकान तक।
दक्षिण दिशा:-	प्रभावती के मकान से सी.सी. रोड़ होते हुए पश्चिम की ओर रंजीत के मकान तक।
पश्चिम दिशा:-	रंजीत के मकान से उत्तर की ओर मुजीब के मकान तक।

वार्ड क्रमांक- 14 डॉ० भीमराव अम्बेडकर वार्ड

उत्तर दिशा:-	उत्तर पश्चिम के कोना में ओम प्रकाश सोनवानी के मकान से पूर्व की ओर रामसाय के मकान तक।
पूर्व दिशा:-	रामसाय के मकान से दक्षिण की ओर ठिभू के मकान तक।
दक्षिण दिशा:-	ठिभू के मकान से पश्चिम की ओर सोनामुनी के घर तक।
पश्चिम दिशा:-	सोनामुनी के घर से उत्तर की ओर ओम प्रकाश सोनवानी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक- 15 डॉ० राजेन्द्र प्रसाद वार्ड

उत्तर दिशा:- उत्तर पश्चिम के कोना में अजीत के मकान से पूर्व की ओर पास्कल के मकान तक।
पूर्व दिशा:- पास्कल मकान से दक्षिण की ओर नुनू राम के मकान तक।
दक्षिण दिशा:- नुनू राम के मकान से पश्चिम की ओर कैलाश के मकान तक।
पश्चिम दिशा:- कैलाश के मकान से उत्तर की ओर अजीत के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12/07/2019

एफ 1-41/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-41/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-41/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Kusmi., Distt. Balrampur-Ramanujganj as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Kusmi. into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Mahatma Gandhi Ward
2	Chandrashekhar Ward
3	Indira Gandhi Ward
4	Vinoba Bhave Ward
5	Pt. Jawaharlal Nehru Ward
6	Lal Bahadur Sastri Ward
7	Sardar Bhagat Singh Ward
8	Moulana A Kalam Ajad Ward
9	Subhash Chandra Bose Ward
10	Rajeev Gandhi Ward
11	Bal Ganga Dhar Tilak Ward
12	Sardar Valabh Bhai Patel Ward
13	Madan Mohan Malviya Ward
14	Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward
15	Dr. Rajendra Prashad Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Kusmi.

WARD NO. 01 - MAHATMA GANDHI WARD

- North -** In the corner of North East the Residence of Ghunsi To East Side at the house of Nasima.
- East-** From the house of Nasima To In the South Side Of Old Cheer House Masjid.
- South-** From Old Cheer House Masjid To West Side Chatrpati House.
- West-** **From** Chatrpati House To By-Pass Road North Side Residence of Ghunsi.

WARD NO. 02 - CHANDRASHEKHAR WARD

- North -** In the corner of North East the Residence of Thasar To East Side at the house of Seetaram.
- East-** From the house of Seetaram To In the South Side at the Govt Hospital.
- South-** From Govt Hospital To Main Road West Side at the house of Laxman.
- West -** From the house of Laxman To North Side Thasar House.

WARD NO. 03 - INDIRA GANDHI WARD

- North -** In the corner of North East the Residence of Dhanesh To East Side at the House of Afsana.
- East-** From the House of Afsana To In the South Side at the Public Toilet.
- South-** From the Public Toile To Main Road West Side Old Office of Janpad Panchyat .
- West -** From the Old Office of Janpad Panchayat To North Side Dhanesh House.

WARD NO. 04- VINOBA BHAVE WARD

- North -** In the corner of North East the Welcome Geat near Nisar House To East Side at the Department of water resources office.
- East-** From the Department of water resources office To the South Side at the House of kishun.
- South-** From the House of Kishun To West Side at the House of Pitambar.
- West -** From the House of Pitambar To North Side Welcome Geat near Nisar House .

WARD NO. 05- PT. JAWAHARLAL NEHRU WARD

- North -** In the corner of North East the Durga Mandap To Main road East Side at the Shope of Kamlapuri .
- East-** From the Shope of Kamlapuri To C.C. Road In the South Side at the Tempal of Hanuman.
- South-** From the Tempal of Hanuman To West Side House of Jagmani.
- West -** From the House of Jagmani To North Side Durga Mandap.

WARD NO. 06- LAL BAHADUR SASTRI WARD

- North -** In the corner of North East the House of Shiva To C.C. Road East Side at the House of Maltu.
- East-** From the House of Maltu To In the South Side at the House of Nasrulla.
- South-** From the House of Nasrull To West Side at the House of Jagarnath.
- West -** From the House of Jagarnath To North Side House of Shiva .

WARD NO. 07- SARDAR BHAGAT SINGH WARD

- North -** In the corner of North East the Bhagat Hotal To East Side at the House of Salda Khatun.
- East-** From the House of Salda Khatun To In the South Side at the House of Gulam Rabbani (Disko).
- South-** From the House of Gulam Rabbani (Disko) To C.C. Road West Side At the Sameer Hotal.
- West -** From the Sameer Hotal To North Side Bhagat Hotal .

WARD NO. 08- M. ABDUL KALAM AJAD WARD

- North -** In the corner of North East the Badi Masjid To East Side at the House of Nijam.
- East-** From the House fo Nijam To C.C. Road In the South Side at the Main Road Shope of Lavnath .
- South-** From the Shope of Lavnath To West Side At the House of Virendr.
- West -** From the House of Virendr To North Side of Badi Masjid.

WARD NO. 09- SUBHASH CHANDRA BOSH WARD

- North -** In the corner of North East the House of Hadish To East Side at the House of Aslam.
- East-** From the House of Aslam To C.C. Road In the South Side at the House of Pryag Gupta.
- South-** From the House of Pryag Gupta To Main Road West Side At the House of Bandhan.
- West -** From the House of Bandhan To Main Road North Side House of Hadish.

WARD NO. 10- RAJEEV GANDHI WARD

- North -** In the corner of North East the House of Ramawati To East Side at the House of Dilip Gupta .
- East-** From the House of Dilip Gupta To In the South Side at the Receration Hall.
- South-** From the Receration Hall To Shiv Tempal West Side At the House of Uday Singh.
- West -** From the House of Uday Singh To North Side House of Ramawati.

WARD NO. 11- BAL GANGA DHAR TILAK WARD

- North -** In the corner of North East the House of Halim To Main Road East Side at the House of Ashok .
- East-** From the House of Ashok To Main Road In the South Side at the Play Ground.
- South-** From the Play Ground To West Side At the House of Fulmani.
- West -** From the House of Fulmani To North Side House of Halim.

WARD NO. 12- SARDAR VALABH BHAI PATEL WARD

- North -** In the corner of North East the Boys High School To East Side at the College To Benganga River.
- East-** From the Benganga River To In the South Side at the House of Lakhu Ram.
- South-** From the House of Lakhu Ram To West Side At the Thing Dam.
- West -** From the Thing Dam To C.C. Road North Side at the Boys High School

WARD NO. 13- MADAN MOHAN MALVIYA WARD

- North -** In the corner of North East the House of Mujeeb To East Side at the Thing Dam.
- East-** From the Thing Dam To In the South Side at the House of Prabhawati.
- South-** From the House of Prabhawati To C.C. Road West Side At the House Ranjeet.
- West -** From the House of Ranjeet To North Side at the House of Mujeeb.

WARD NO. 14- DR. BHIM RAO AMBEDKAR WARD

- North -** In the corner of North East the House of Om Prakash Sonwani To East Side at the House of Ram Sai.
- East-** From the House of Ram Sai To In the South Side at the House of Thibhu.
- South-** From the House of ThiBhu To West Side At the House of Sonamuni .
- West -** From the House of Sonamuni To North Side at the House of Om Prakash Sonwani.

WARD NO. 15- DR. RAJENDRA PRASHAD WARD

- North -** In the corner of North East the House of Ajit To East Side at the House of Paskal.
- East-** From the House of Paskal To In the South Side at the House of Nunu Ram.
- South-** From the House of Nunu Ram To West Side At the House of Kailash .
- West -** From the House of Kailash To North Side at the House of Ajit.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.